

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 324]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 3 अगस्त 2016—श्रावण 12, शक 1938

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2016

क्र. बी-8-5-2016-चौदह-2.—भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण, मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्र. 13015-03-2016-क्रेडिट II, दिनांक 23 फरवरी 2016 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत वर्ष 2016-17 मौसम खरीफ एवं रबी के लिये अधिसूचना क्रमांक 189, दिनांक 23 अप्रैल 2016 जारी की गई है। जारी अधिसूचना में मौसम खरीफ 2016 के लिये संलग्न सूची अनुसार पटवारी हल्का स्तर पर अधिसूचित फसलों की जिला सीहोर, छिन्दवाड़ा, रायसेन, बैतूल एवं शाजापुर के लिये संशोधित अधिसूचना जारी की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार, पटवारी हल्कों की सूची

मौसम—खरीफ, वर्ष 2016-2017

जिला	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	100 हैक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची							
					धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
सीहोर	आष्टा	आष्टा	1	मैना	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			5	सेवदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			48	किलोरामा	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			49	आष्टा	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			52	रूपेटा	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			53	भेरूपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			कोठरी	23	लसूड़िया सूखा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
				24	चुपाड़िया	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
				25	निपानिया कला	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
				26	बोरखेड़ा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
				31	कोठरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			बुधनी	बुधनी	8	जहानपुर	धान सिंचित	-	-	-	-	-
					11	शाहगंज	धान सिंचित	-	-	-	-	-
					12	बनेटा	धान सिंचित	-	-	-	-	-
13	अकोला	धान सिंचित			-	-	-	-	-			
14	डुगरिया	धान सिंचित			-	-	-	-	-			
15	जवहारखेड़ा	धान सिंचित			-	-	-	-	-			
19	हथनोरा	धान सिंचित			-	-	-	-	-			
20	डोबी	धान सिंचित			-	-	-	-	-			
21	सरदारनगर	धान सिंचित			-	-	-	-	-			
22	जेत	धान सिंचित			-	-	-	-	-			
24	बोरना	धान सिंचित			-	-	-	-	-			
26	खवादा	धान सिंचित			-	-	-	-	-			
27	गाडर	धान सिंचित			-	-	-	-	-			
28	खिरियाकुर्मी	धान सिंचित			-	-	-	-	-			
30	आमोन	धान सिंचित	-	-	-	-	-					
34	जोनतला	धान सिंचित	-	-	-	-	-					
35	खेरी सिलगेना	धान सिंचित	-	-	-	-	-					
36	नादनेर	धान सिंचित	-	-	सोयाबीन	-	-	-				
37	कुसुमखेड़ा	धान सिंचित	-	-	-	-	-	-				
38	नोनमेट	धान सिंचित	-	-	-	-	-	-				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	रेहटी	रेहटी	34	खजूरी	-	-	-	-	-	-
		सलकनपुर	11	सलकनपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			13	मुरहि	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			14	पथौडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			15	अंवलीघाट	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			16	मोगरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			17	मर्दानपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			23	जहाजपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			24	निनोर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			26	पानगुराडिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार, पटवारी हल्कों की सूची

मौसम—खरीफ, वर्ष 2016-2017

जिला	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	100 हैक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची					
					धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
छिन्दवाड़ा	चौरई	कपूर्दा	27	घोरावाड़ी	-	-	-	-	मक्का	-
			28	सिमरियाकलां	-	-	-	-	मक्का	-
			29	फुटेरा	-	-	-	-	मक्का	-
			31	खैरीखुर्द	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार, पटवारी हल्कों की सूची

मौसम—खरीफ, वर्ष 2016-2017

जिला	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	100 हैक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची					
					धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

निम्नलिखित हल्के अधिसूचित किये जाते हैं

रायसेन	सिलवानी	सिलवानी	30	उचेरा जमुनिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			35	बेगवां कलां	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			37	मुआंर	धान सिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			42	हिनोतिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			43	खमेरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			44	सियरमउ	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			45	डाबरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	सुल्तानपुर	ईंटखेड़ी	17	उमरई बेहरा	धान सिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			20	सांतरा	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			21	घोटी बेहरा	-	-	-	तुअर	-	-
			22	चोरा कमरोरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-

निम्नलिखित हल्के अधिसूचित हैं परन्तु फसलें अधिसूचित की जाती हैं

गोहरगंज	उमरावगंज	41	चिकलोदखुर्द	धान सिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		42	मकोड़िया	धान सिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
बाड़ी	भारकच्छ	35	भारकच्छकला	धान सिंचित	-	-	तुअर	-	-
रायसेन	दीवानगंज	11	बड़ोदा	धान सिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		12	बागोद	धान सिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		15	मेडकी	-	धान	सोयाबीन	-	-	-

असिंचित

	सांची	25	सांची	धान सिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		26	ढकना चपना	धान सिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		27	चिरहोली	धान सिंचित	-	-	-	-	-
		29	बारला	धान सिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		32	सदालतपुर	धान सिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		33	सेवासनी	धान सिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		34	सिलपुरी	धान सिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
सुल्तानपुर	ईंटखेड़ी	13	किनगी	धान सिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		16	ईंटखेड़ी	धान सिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		18	खमरिया सोहनपुर	धान सिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		19	बेरखेड़ी कलां	धान सिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
	सुल्तानपुर	6	सेमरीखुर्द	धान सिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-

निम्नलिखित फसलों को विलोपित किया जाता है

रायसेन	रायसेन	दीवानगंज	19	चिरहोली	धान सिंचित	-	-	-	-
			20	सरचंपा	धान सिंचित	-	-	-	-
		सांची	40	नांद	धान सिंचित	-	-	-	-
		सांचेत	61	मउजागीर	-	-	सोयाबीन	-	-
			62	नयापुरा	-	-	सोयाबीन	-	-
			75	नकतरा	धान सिंचित	-	-	-	-
			77	नरवर	धान सिंचित	-	-	-	-
			78	गुदावल	-	-	सोयाबीन	-	-
			79	सिरसोदा	-	-	सोयाबीन	-	-
सिलवानी	सिलवानी	32	सिलवानी	धान सिंचित	-	-	-	-	-
सुलतानपुर	सुल्तानपुर	7	बगासपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार, पटवारी हल्कों की सूची

मौसम—खरीफ, वर्ष 2016-2017

जिला	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	100 हैक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची					
					धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
निम्नलिखित फसलों को जोड़ा जाता है.										
बैतूल	शाहपुर	शाहपुर	00003	डाबरी	-	-	-	-	मक्का	-
			37	शाहपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	भैसदेही	भीमपुर	39	भीमपुर	-	-	-	-	मक्का	-
			26	गदाखार	-	धान असिंचित	-	-	-	-
	बैतूल	खेड़ी सांवलीगढ़	19	कोदारोटी	-	-	-	-	मक्का	-
		21	बोदीजूनावानी	-	-	-	-	मक्का	-	

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार, पटवारी हल्कों की सूची

मौसम—खरीफ, वर्ष 2016-2017

जिला	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	100 हैक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची					
					धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
शाजापुर	कालापीपल		00005	बकायन	-	-	सोयाबीन जोड़ी जाती है	-	मक्का विलोपित की जाती है	-
			00007	कोहड़ी	-	-	सोयाबीन जोड़ी जाती है	-	मक्का विलोपित की जाती है	-
			00008	आगखेड़ी	-	-	सोयाबीन जोड़ी जाती है	-	मक्का विलोपित की जाती है	-
			00011	गालबी	-	-	सोयाबीन जोड़ी जाती है	-	मक्का विलोपित की जाती है	-
			00012	मोहम्मगपुर मछनई	-	-	सोयाबीन जोड़ी जाती है	-	मक्का विलोपित की जाती है	-
			00013	गणेशपुर	-	-	सोयाबीन जोड़ी जाती है	-	मक्का विलोपित की जाती है	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			00014	झण्डी	-	-	सोयाबीन जोड़ी जाती है	-	मक्का विलोपित की जाती है	-
			00016	बड़बेली	-	-	सोयाबीन जोड़ी जाती है	-	मक्का विलोपित की जाती है	-
			00018	चारखेड़ी	-	-	सोयाबीन जोड़ी जाती है	-	मक्का विलोपित की जाती है	-
			00021	ईमलीखेड़ा	-	-	सोयाबीन जोड़ी जाती है	-	मक्का विलोपित की जाती है	-
			00025	नांदनी	-	-	सोयाबीन जोड़ी जाती है	-	मक्का विलोपित की जाती है	-
			00027	पिपल्यानगर	-	-	सोयाबीन जोड़ी जाती है	-	मक्का विलोपित की जाती है	-
			00028	खजूरीअलाहाद	-	-	सोयाबीन जोड़ी जाती है	-	मक्का विलोपित की जाती है	-
			00029	कांकरखेड़ा	-	-	सोयाबीन जोड़ी जाती है	-	मक्का विलोपित की जाती है	-
	मो. बड़ोदिया	मो. बड़ोदिया	00012	करजू	-	-	सोयाबीन जोड़ी जाती है	-	मक्का विलोपित की जाती है	-
			00027	दुधाना	-	-	सोयाबीन जोड़ी जाती है	-	मक्का विलोपित की जाती है	-
	शुजालुपर	01 शुजालपुर	00010	टिटवास	-	-	सोयाबीन जोड़ी जाती है	-	-	-